


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 1977/भाद्र 1, 1899
No. 12] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 1977/BHADRA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 15-ई—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 36-ई तारीख, 1 सितम्बर, 1976 द्वारा यह घोषणा की थी कि सिकन्दराबाद छावनी के प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड के गठन में परिवर्तन करना वांछनीय है।

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि छावनी बोर्ड के प्रशासन के लिए उक्त बोर्ड के कार्यकाल को कुछ और अवधि के लिए बढ़ाना वांछनीय है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त बोर्ड का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1977 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है बढ़ाती है।

[फा० सं० 29'17'सी एल एण्ड सी'76'2515-सी'डी० (न्यू एण्ड सी)]

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22 August, 1977

S.R.O. 15-E.—Whereas the Central Government by the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, No. S.R.O. 36-E, dated the 1st September, 1976, had declared that for the administration of the Secunderabad Cantonment, it was desirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Secunderabad;

And whereas, the Central Government is satisfied that for the administration of the Cantonment Board, Secunderabad, it is desirable to extend the term of office of the said Board by a further period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby extends the term of office of the said Board upto and inclusive of the 31st December, 1977.

[F. No. 29/17/C/L&C/76/2515-C/D(Q&C)]

सा० का० नि० 16-ई.—केन्द्रीय सरकार, छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के साथ पठित उपधारा (3) के अनुसरण में, अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित व्यक्तियों को, 2 सितम्बर, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 तक, जिसमें 31 दिसम्बर 1977 की तारीख भी सम्मिलित है, स्टेशन के कमान आफिसर द्वारा छावनी बोर्ड, सिकन्दराबाद का सदस्य नाम निर्देशित किया जाता है, अर्थात्,—

- | | |
|---|---|
| 1. ले० क० एस० बी० गंगोली | धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्देशित |
| 2. श्री सुरीनीगेंती जगन्नाथम सुपुत्र श्री अचिरम | धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नाम निर्देशित |

[का० स० 29/17 सी एल एण्ड सी 76 2515-सी डी (क्यू एण्ड सी)]

बी० बी० सहाय, सयुक्त सचिव ।

S.R.O. 16-E.—In pursuance of sub-section (3), read with clauses (b) and (c) of sub-section 2, of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that the following persons have been nominated by the Officer Commanding the Station to be the members of the Cantonment Board, Secunderabad with effect from the 2nd September, 1977 upto and inclusive of the 31st December, 1977, namely:—

1. Lt. Col. S. B. Gangoly—nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14.
2. Shri Surinigenti Jagannatham son of Shri Achiram—nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14.

[F. No. 20/17/C/L&C/76/2515-C/1/D(Q&C)]

B. B. SAHAY, Jt. Secy.

महा प्रबन्धक भारत सरकार मूद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निर्यत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977